

प्रेस विज्ञापि

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महाराजगंज, दिनांक नवम्बर 20, 2022

!! □ आज दिनांक 20.11.2022 को पुलिस अधीक्षक महाराजगंज श्री डॉ0 कौस्तुभ के निर्देशन में जनपद महाराजगंज पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य का विवरण!!

***1.** “मिशन शक्ति अभियान” के तहत नारी सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन के प्रति बालिकाओं/महिलाओं में सशक्तिकरण व विश्वास का वातावरण बनाने के उद्देश्य से महाराजगंज पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर जाकर महिलाओं/बालिकाओं को किया गया जागरूक।

2. *जनपद के थानों द्वारा किये गये सराहनीय कार्य-

I. थाना पनियरा द्वारा आपरेशन तलाश के क्रम में मु0अ0सं0 280/22 से सम्बन्धित अपृहता सकुशल बरामद कर वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी गई।

II. थाना श्यामदेउरवा द्वारा आपरेशन तलाश के क्रम में मु0अ0सं0 197/22 से सम्बन्धित अपृहता सकुशल बरामद कर वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी गई।

***3.** पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में पुलिस अधिकारियों द्वारा कानून एवं शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत संत्रांत व्यक्तियों, धर्मगुरुओं, कास्तकारों, किसानों के साथ थानों में शान्ति समिति की बैठके कर सौहार्दपूर्ण, स्वस्थ वातावरण बनाए रखने हेतु पराली न जलाने एवं अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गयी।

4. *शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल- 40 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

5. *पैदल गश्त अभियान- श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपद पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गश्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया। जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके।

6. *अबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही- पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा अवैध शराब/ मादक पदार्थ/खदीदफरोक्त/ तस्करी की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए विभिन्न थानों से 03 अभियक्तों को गिरफ्तार कर उनके उपर अभियोग पंजीकृत करते हुए उनके कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय किया गया।

7. *विवेचनाओं का निस्तारण- पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल- 13 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया ।

8. *जनपद में 19/20.11.2022 को विभिन्न अपराधों में कुल- 43 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी ।

9.आदेश- महाराजगंज पुलिस द्वारा शान्ति सुरक्षा, कानून व्यवस्था अपराध नियन्त्रण को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु समस्त क्षेत्राधिकारियों/थाना प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष/चौकी प्रभारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत पैदल गश्त किया जायेगा ।